

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 613]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 11 अक्टूबर 2022 — आश्विन 19, शक 1944

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 11 अक्टूबर 2022

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-1/2022/1/5. — भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56-पब-एक, दिनांक 8 जून, 1957 के साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स एक्ट), 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन, यह घोषित करता है कि उक्त स्पष्टीकरण के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाशों में पहले से शामिल सभी रविवारों के अतिरिक्त निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित दिन भी वर्ष 2023 के लिए सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक अवकाश के दिन होंगे :-

सार्वजनिक अवकाश (अनुसूची)

स.क्र.	अवकाश का नाम	घोषित अवकाश के दिवसों की संख्या	ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार तारीख	राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार तिथि (शक संवत्)	सप्ताह का दिन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	गणतंत्र दिवस	एक	26 जनवरी	माघ 06, 1944	गुरुवार
2.	महाशिवरात्रि	एक	18 फरवरी	माघ 29, 1944	शनिवार
3.	होली	एक	8 मार्च	फाल्गुन 17, 1944	बुधवार
4.	बैंको की वार्षिक लेखाबंदी	एक	01 अप्रैल	चैत्र 11, 1945	शनिवार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	महावीर जयंती	एक	4 अप्रैल	चैत्र 14, 1945	मंगलवार
6.	गुड फ्राइडे	एक	7 अप्रैल	चैत्र 17, 1945	शुक्रवार
7.	ईद-उल-फितर	एक	22 अप्रैल	वैशाख 2, 1945	शनिवार
8.	बुद्ध पूर्णिमा	एक	5 मई	वैशाख 15, 1945	शुक्रवार
9.	ईद-उल-जुहा (बकरीद)	एक	29 जून	आषाढ 8, 1945	गुरुवार
10.	मोहर्रम	एक	29 जुलाई	श्रावण 7, 1945	शनिवार
11.	स्वतंत्रता दिवस	एक	15 अगस्त	श्रावण 24, 1945	मंगलवार
12.	कृष्ण जन्माष्टमी	एक	7 सितंबर	भाद्रपद 16, 1945	गुरुवार
13.	ईद-ए-मिलाद (मिलाद-उन-नबी)	एक	28 सितंबर	आश्विन 6, 1945	गुरुवार
14.	महात्मा गांधी जन्म दिवस	एक	2 अक्टूबर	आश्विन 10, 1945	सोमवार
15.	दशहरा (विजयादशमी)	एक	24 अक्टूबर	कार्तिक 2, 1945	मंगलवार
16.	गुरुनानक जन्म दिवस	एक	27 नवम्बर	अगहन 6, 1945	सोमवार
17.	क्रिसमस दिवस	एक	25 दिसंबर	पौष 04, 1945	सोमवार

टीप :- सरल क्रमांक-4 में उल्लेखित अवकाश केवल बैंकों एवं कोषालयों हेतु घोषित है.

(2) निम्नलिखित अवकाश के दिन रविवार होने के कारण अलग से अवकाश घोषित नहीं किये गये हैं :-

क्रमांक	अवकाश का नाम	घोषित अवकाश के दिवसों की संख्या	ग्रेगोरियन कैलेण्डर के अनुसार तारीख	राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार तिथि (शक संवत्)	सप्ताह का दिन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	दीवाली (दीपावली)	एक	12 नवम्बर	कार्तिक 21, 1945	रविवार

अटल नगर, दिनांक 11 अक्टूबर 2022

## अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-1/2022/1/5. — राज्य शासन एतद्वारा वर्ष 2023 के लिए, छत्तीसगढ़ के समस्त शासकीय कार्यालयों तथा संस्थाओं हेतु निम्नलिखित सामान्य एवं ऐच्छिक अवकाश घोषित करता है :-

## (अ) सामान्य अवकाश

क्रमांक	अवकाश का नाम	घोषित अवकाश के दिवसों की संख्या	ग्रेगोरियन कैलेण्डर के अनुसार तारीख	राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार तिथि (शक संवत्)	सप्ताह का दिन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	माँ शाकांभरी जयंती एवं छेरछेरा	एक	6 जनवरी	पौष 16, 1944	शुक्रवार
2.	गणतंत्र दिवस	एक	26 जनवरी	माघ 6, 1944	गुरुवार
3.	महाशिवरात्रि	एक	18 फरवरी	माघ 29, 1944	शनिवार
4.	होली	एक	8 मार्च	फाल्गुन 17, 1944	बुधवार
5.	भक्त माता कर्मा जयंती	एक	18 मार्च	फाल्गुन 27, 1944	शनिवार
6.	रामनवमी	एक	30 मार्च	चैत्र 9, 1945	गुरुवार
7.	महावीर जयंती	एक	4 अप्रैल	चैत्र 14, 1945	मंगलवार
8.	गुड फ्राइडे	एक	7 अप्रैल	चैत्र 17, 1945	शुक्रवार
9.	डॉ. अंबेडकर जयंती	एक	14 अप्रैल	चैत्र 24, 1945	शुक्रवार
10.	ईद-उल-फितर	एक	22 अप्रैल	वैशाख 2, 1945	शनिवार
11.	बुद्ध पूर्णिमा	एक	5 मई	वैशाख 15, 1945	शुक्रवार
12.	ईद-उल-जुहा (बकरीद)	एक	29 जून	आषाढ 8, 1945	गुरुवार
13.	हरेली	एक	17 जुलाई	आषाढ 26, 1945	सोमवार
14.	मोहर्रम	एक	29 जुलाई	श्रावण 7, 1945	शनिवार
15.	विश्व आदिवासी दिवस	एक	09 अगस्त	श्रावण 18, 1945	बुधवार
16.	स्वतंत्रता दिवस	एक	15 अगस्त	श्रावण 24, 1945	मंगलवार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17.	रक्षाबंधन	एक	30 अगस्त	भाद्रपद 8, 1945	बुधवार
18.	कृष्ण जन्माष्टमी	एक	07 सितम्बर	भाद्रपद 16, 1945	गुरुवार
19.	हरितालिका तीज (पर्व)	एक	18 सितम्बर	भाद्रपद 27, 1945	सोमवार
20.	ईद-ए-मिलाद (मिलाद-उन-नबी)	एक	28 सितम्बर	आश्विन 06, 1945	गुरुवार
21.	महात्मा गांधी जन्म दिवस	एक	02 अक्टूबर	आश्विन 10, 1945	सोमवार
22.	दशहरा (विजयादशमी)	एक	24 अक्टूबर	कार्तिक 02, 1945	मंगलवार
23.	गुरुनानक जन्म दिवस	एक	27 नवंबर	अगहन 6, 1945	सोमवार
24.	गुरुघासी दास जयंती	एक	18 दिसम्बर	अगहन 27, 1945	सोमवार
25.	क्रिसमस दिवस	एक	25 दिसम्बर	पौष 4, 1945	सोमवार

## टीप :-

- (1) “निगोशिएबल ईन्स्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 (1881 का क्रमांक 26)” की धारा 25 के अंतर्गत कोषालय एवं उप कोषालय हेतु सार्वजनिक अवकाश इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11-10-2022 द्वारा घोषित किए गए हैं.
- (2) निम्नलिखित अवकाश के दिन रविवार होने के कारण अलग से अवकाश घोषित नहीं किये गये हैं :-

क्रमांक	अवकाश का नाम	घोषित अवकाश के दिवसों की संख्या	ग्रेगोरियन कैलेण्डर के अनुसार तारीख	राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार तिथि (शक संवत्)	सप्ताह का दिन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कबीर जयंती	एक	4 जून	ज्येष्ठ 14, 1945	रविवार
2.	दीवाली (दीपावली)	एक	12 नवम्बर	कार्तिक 21, 1945	रविवार
3.	छठ पूजा	एक	19 नवम्बर	कार्तिक 28, 1945	रविवार

## (ब) ऐच्छिक अवकाश

क्रमांक	अवकाश का नाम	घोषित अवकाश के दिवसों की संख्या	ग्रेगोरियन कैलेण्डर के अनुसार तारीख	राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार तिथि (शक संवत्)	सप्ताह का दिन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	माता सावित्री बाई फूले जयंती	एक	3 जनवरी	पौष 13, 1944	मंगलवार
2.	लुई ब्रेल का जन्म दिवस	एक	4 जनवरी	पौष 14, 1944	बुधवार
3.	राजिम भक्तिन माता जयंती	एक	7 जनवरी	पौष 17, 1944	शनिवार
4.	विश्व हिन्दी दिवस	एक	10 जनवरी	पौष 20, 1944	मंगलवार
5.	मकर संक्रांति	एक	14 जनवरी	पौष 24, 1944	शनिवार
6.	शहीद गैँदसिंह का शहादत दिवस	एक	20 जनवरी	पौष 30, 1944	शुक्रवार
7.	नेताजी सुभाषचन्द्र बोस जयंती	एक	23 जनवरी	माघ 03, 1944	सोमवार
8.	बसंत पंचमी/माँ परमेश्वरी जयंती	एक	26 जनवरी	माघ 06, 1944	गुरुवार
9.	महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती	एक	15 फरवरी	माघ 26, 1944	बुधवार
10.	होली (होलिका दहन)	एक	7 मार्च	फाल्गुन 16, 1944	मंगलवार
11.	शब-ए-बारात	एक	7 मार्च	फाल्गुन 16, 1944	मंगलवार
12.	भाई-दूज	एक	9 मार्च	फाल्गुन 18, 1944	गुरुवार
13.	वीरांगना अवंति बाई का बलिदान दिवस	एक	20 मार्च	फाल्गुन 29, 1944	सोमवार
14.	गुडी पडवा	एक	22 मार्च	चैत्र 1, 1945	बुधवार
15.	चैतीचांद	एक	23 मार्च	चैत्र 2, 1945	गुरुवार
16.	हाटकेश्वर जयंती	एक	5 अप्रैल	चैत्र 15, 1945	बुधवार
17.	धरती पूजा (खद्दी पर्व)	एक	6 अप्रैल	चैत्र 16, 1945	गुरुवार
18.	वैशाखी	एक	14 अप्रैल	चैत्र 24, 1945	शुक्रवार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19.	सेन जयंती	एक	17 अप्रैल	चैत्र 27, 1945	सोमवार
20.	जमात-उल-विदा	एक	21 अप्रैल	वैशाख 1, 1945	शुक्रवार
21.	परशुराम जयंती	एक	22 अप्रैल	वैशाख 2, 1945	शनिवार
22.	शंकराचार्य जयंती	एक	25 अप्रैल	वैशाख 5, 1945	मंगलवार
23.	छत्रसाल जयंती/महाराणा प्रताप जयंती	एक	22 मई	ज्येष्ठ 1, 1945	सोमवार
24.	महेश नवमी (ज्येष्ठ शुक्ल)	एक	29 मई	ज्येष्ठ 8, 1945	सोमवार
25.	रथयात्रा	एक	20 जून	ज्येष्ठ 30, 1945	मंगलवार
26.	वीरांगना दुर्गावती का बलिदान दिवस	एक	24 जून	आषाढ 3, 1945	शनिवार
27.	डॉ. खूबचंद बघेल का जन्म दिवस	एक	19 जुलाई	आषाढ 28, 1945	बुधवार
28.	पारसी नववर्ष	एक	16 अगस्त	श्रावण 25, 1945	बुधवार
29.	नाग पंचमी	एक	21 अगस्त	श्रावण 30, 1945	सोमवार
30.	ओणम	एक	29 अगस्त	भाद्रपद 7, 1945	मंगलवार
31.	हरछठ	एक	5 सितम्बर	भाद्रपद 14, 1945	मंगलवार
32.	पोला	एक	14 सितम्बर	भाद्रपद 23, 1945	गुरुवार
33.	गणेश चतुर्थी	एक	19 सितम्बर	भाद्रपद 28, 1945	मंगलवार
34.	नवाखाई	एक	22 सितम्बर	भाद्रपद 31, 1945	शुक्रवार
35.	ढोल ग्यारस	एक	25 सितम्बर	आश्विन 3, 1945	सोमवार
36.	अनंत चतुर्दशी	एक	28 सितम्बर	आश्विन 6, 1945	गुरुवार
37.	प्राणनाथ जयंती	एक	13 अक्टूबर	आश्विन 21, 1945	शुक्रवार
38.	सर्व पितृमोक्ष अमावस्या	एक	14 अक्टूबर	आश्विन 22, 1945	शनिवार
39.	दशहरा (महानवमी)	एक	23 अक्टूबर	कार्तिक 1, 1945	सोमवार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40.	महर्षि वाल्मिकी जयंती/ महाराजा अजमोद देव जयंती/टेकचन्द जी महाराज का समाधि उत्सव/कुवॉर पूर्णिमा “करम परब” (त्यौहार)	एक	28 अक्टूबर	कार्तिक 6, 1945	शनिवार
41.	करवाचौथ व्रत	एक	1 नवम्बर	कार्तिक 10, 1945	बुधवार
42.	डॉ. सैय्यदना साहब का जन्म दिवस	एक	4 नवम्बर	कार्तिक 13, 1945	शनिवार
43.	दीपावली (दक्षिण भारतीय)	एक	11 नवम्बर	कार्तिक 20, 1945	शनिवार
44.	दीपावली का दूसरा दिन (गोवर्धन पूजा)	एक	13 नवम्बर	कार्तिक 22, 1945	सोमवार
45.	भाई दूज	एक	15 नवम्बर	कार्तिक 24, 1945	बुधवार
46.	नामदेव जयंती	एक	23 नवम्बर	अगहन 2, 1945	गुरुवार
47.	गुरु तेगबहादुर का शहीदी दिवस	एक	24 नवम्बर	अगहन 3, 1945	शुक्रवार
48.	शहीद वीर नारायण सिंह का बलिदान दिवस	एक	10 दिसम्बर	अगहन 19, 1945	रविवार
49.	दत्तात्रेय जयंती	एक	26 दिसम्बर	पौष 5, 1945	मंगलवार

टीप - गुरु गोविन्द सिंह का जन्म दिवस वर्ष 2022 के माह जनवरी एवं दिसम्बर में आने के कारण वर्ष 2023 में गुरु गोविन्द सिंह का जन्म दिवस नहीं पड़ रहा है.

(1) प्रत्येक शासकीय सेवक को उपरोक्त ऐच्छिक अवकाशों में से उसकी इच्छानुसार केवल 03 ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी.

(2) निम्नलिखित ऐच्छिक अवकाशों के दिन रविवार होने के कारण इन्हें ऐच्छिक अवकाश की उक्त सूची में शामिल नहीं किया गया है :-

क्रमांक	अवकाश का नाम	घोषित अवकाश के दिवसों की संख्या	ग्रेगोरियन कैलेण्डर के अनुसार तारीख	राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार तिथि (शक संवत्)	सप्ताह का दिन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	नववर्ष दिवस	एक	01 जनवरी	पौष 11, 1944	रविवार
2.	पोंगल	एक	15 जनवरी	पौष 25, 1944	रविवार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	हजरत अली का जन्म दिवस	एक	05 फरवरी	माघ 16, 1944	रविवार
4.	राजिम मेला माघ पूर्णिमा/ संत रविदास जन्म दिवस	एक	05 फरवरी	माघ 16, 1944	रविवार
5.	छत्रपति शिवाजी जयंती	एक	19 फरवरी	माघ 30, 1944	रविवार
6.	गुहा निषादराज जयंती	एक	26 मार्च	चैत्र 5, 1945	रविवार
7.	श्रीमद् वल्लभाचार्य जयंती	एक	16 अप्रैल	चैत्र 26, 1945	रविवार
8.	विश्वकर्मा जयंती	एक	17 सितम्बर	भाद्रपद 26, 1945	रविवार
9.	अग्रसेन जयंती	एक	15 अक्टूबर	आश्विन 23, 1945	रविवार
10.	दशहरा (महाअष्टमी)	एक	22 अक्टूबर	आश्विन 30, 1945	रविवार
11.	भगवान सहस्रबाहु जयंती	एक	19 नवम्बर	कार्तिक 28, 1945	रविवार
12.	शहीद वीर नारायण सिंह का बलिदान दिवस	एक	10 दिसम्बर	अगहन 19, 1945	रविवार

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय अग्रवाल, संयुक्त सचिव.